



जिला निर्धारण तथ्य शीट

लॉस एंजिलेस काउंटी के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है! स्वतंत्र लॉस एंजिलेस काउंटी नागरिक जिला निर्धारण आयोग (Citizens Redistricting Commission) (LA काउंटी CRC) अगले 10 वर्षों के लिए पर्यवेक्षी जिलों की सीमाएं पुनः निर्धारित करेगा।

आपको क्या जानना चाहिए

यह जिला निर्धारण प्रक्रिया पिछली पद्धतियों से कैसे अलग है

अतीत में, पर्यवेक्षक मंडल (Board of Supervisors) के पास निर्धारित जिले की सीमाओं को अपनाने से पहले अंतिम निर्णय लेने का अधिकार था। आज LA काउंटी CRC को बोर्ड के प्रभाव से मुक्त रखने और काउंटी की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है।

जिला निर्धारण का संक्षिप्त विवरण

हमारे कार्य में ऐसे पर्यवेक्षी जिलों को अपनाना शामिल है जो अमरीका के जनसंख्या आँकड़ों के आधार पर जनसंख्या में लगभग समान हों – लगभग 2 मिलियन लोग प्रति जिला। अन्य बातें जिन पर विचार किया जाना है, वे हैं नस्ल और जातीयता के संबंध में निष्पक्षता; हित के शहरों, पड़ोसी क्षेत्रों और समुदायों में बंटवारा न होने देना; और छोटे जिले बनाना।

जिला निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है

स्थानीय स्तर पर आवधिक जिला निर्धारण से निम्नलिखित में सहायता मिल सकती है:

- यह सुनिश्चित करना कि हमारी काउंटी की विविध जनसंख्या और समुदायों को अपनी बात रखने के अवसर मिलें
- मतदाताओं को अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने में सक्षम बनाना और पर्यवेक्षी जिलों को इस प्रकार निर्धारित न करना कि निष्पक्ष अवसरों में कमी आ जाए
- जहाँ पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) निम्नलिखित के माध्यम से निवासियों की प्राथमिकताओं और ज़रूरतों के प्रति उत्तरदायी हों:
 - जीवन में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक नीतियाँ
 - जन सेवाएँ और संसाधन (जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा केंद्र, सामाजिक सेवाएँ, पार्क, शेरिफ़, अनिगमित क्षेत्रों और संविदा शहरों को नगर संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराना... और बहुत कुछ)

हम पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया चाहते हैं। आपकी आवाज निम्नलिखित माध्यमों से बुलंद करें:

- हमारी नियमित बैठकों में भाग लेना
- हमारे सार्वजनिक मंचों पर और जन सुनवाईयों में अपने विचार साझा करना
- लिखित सार्वजनिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना
- नक्शे तैयार करना और विचारार्थ प्रस्तुत करना
- दूसरे लोगों को जिला निर्धारण के बारे में बताना

साइन अप करें! शामिल हों:

<https://redistricting.lacounty.gov/>

5 नए तैयार किए गए पर्यवेक्षी जिले

हम कौन हैं

सह-अध्यक्ष डेनियल मायेदा
सह-अध्यक्ष कैरोलिन विलियम्स

कमिश्नर जीन फ्रैंकलिन
कमिश्नर डेविड होल्डज़मैन
कमिश्नर मैरी कैनी
कमिश्नर मार्क मेंडोज़ा
कमिश्नर अपोलोनियो मोरालेस
कमिश्नर नेल्सन ओब्रेगोन
कमिश्नर प्रिसिला ओर्पिनेला-सेगुरा
कमिश्नर हैलेस सोटो
कमिश्नर सायरा सोटो
कमिश्नर ब्रायन स्टेचर
कमिश्नर जॉन वेंटो
कमिश्नर डोरीना वोंग

